

## प्रेस नोट दिनांक 07.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना बढपुरा क्षेत्रान्तर्गत गोली लगने से घायल अवस्था में मिले( उपचार के दौरान मृत्यु) युवक की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में एसओजी/ सर्विलांस टीम व थाना बढपुरा पुलिस द्वारा थाना बढपुरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.06.2021 को युवक को गोली मारकर घायल कर देने (उपचार के दौरान मृत्यु) की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया ।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.2021 को थाना बढपुरा पुलिस को सूचना मिली कि थाना बढपुरा क्षेत्रान्तर्गत बाहुरी अड्डा के पास एक युवक गोली लगने से घायल अवस्था में पडा हुआ है सूचना पर तत्काल थाना बढपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक को उपचार हेतु जिला अस्पताल इटावा लाया गया जिसे वहां से पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया । परिजनों द्वारा घायल युवक का सीटी स्कैन कराने हेतु पीजीआई सैफई से आगरा ले जाया गया था वहां से वापस पीजीआई सैफई आने पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी । घटना के संबंध में घायल के पिता केरन सिंह की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 56/21 धारा 307 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया जोकि घायल की मृत्यु हो जाने के उपरान्त धारा 302 भादवि में तरमीम कर दिया गया ।

### गिरफ्तारी का विवरण-

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन करते हुए घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।

गठित टीमों द्वारा घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों को संकलित करते हुए कार्यवाही शुरू की गई जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए पुलिस टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्यारोपी अभियुक्त रॉक्सी यादव उर्फ नीलेश को उधन्नपुरा गांव के पास से पुलिस से बचकर भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया ।

### पुलिस पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस द्वारा अमन यादव को गोली मारने की घटना के संबंध में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक अमन के पास मेरी प्रेमिका के कुछ प्राइवेट फोटो थे जिनसे मृतक अमन उसे ब्लैकमेल करता था इसी बात लेकर मैंने अमन यादव से बदला लेने की योजना बनाई और योजना के अनुसार मैंने अमन की बहन को विश्वास में लेकर उसके आने जाने के बारे में पूरी जानकारी की तथा उसकी रेकी करने लगा । योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 31.05.2021 को मैं अपनी मामी के यहां पर गया और वहां से मैंने उनकी एक जोड़ी

चप्पल व एक जोड़ी काने के झुमका चोरी कर लिये तथा खेत में रखे तमंचे को अपने साथ लेकर ग्राम नारायण बाहुरी प्यारमपुर की सडकों पर रात भर घूमता रहा और अमन के आने का इंतजार करने लगा ।

सुबह लगभग 04.30 बजे जब अमन उस रास्ते से मिर्च लेकर इटावा मंडी जा रहा था तभी मैंने अमन को रास्ते में रोक लिया तथा अमन द्वारा इतनी सुबह वहां पर खडा होने के बारे में पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं अपने दोस्त के यहां से आया हूं और अब तुम्हारे साथ इटावा चलता हूँ इतना कहकर अभियुक्त रॉक्सी अमन की मोटरसाइकिल पर बैठ गया । कुछ दूर आगे चलकर बाहुरी के पास रॉक्सी ने अमन के कुछ बात करने को लेकर मोटरसाइकिल को रूकवा लिया और वहीं पर मोटरसाइकिल खडी कर अमन से अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करने की बात पूछी जिसके बारे में अमन ने कुछ जबाब नहीं दिया । इसी बात को लेकर मैंने मेरे पास रखे तमंचे से अमन के सिर में गोली मार दी और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से अपनी मामी के यहां से चोरी किये गये चप्पल और झुमके में से एक चप्पल व एक झुमके को अमन के पास तथा अन्य को अमन से थोड़ी दूरी पर फेंक दिया तथा घटना को आत्महत्या के रूप में दर्शाने के उद्देश्य से तमंचा को अमन के पास ही छोड दिया, अमन के मोबाइल को घटना स्थल पर जला दिया तथा अपने मोबाइल को एक ट्रक के ऊपर फेंक दिया । जब अमन पीजीआई सैफर्ड में भर्ती था उस समय मैं उसे देखने के लिये पीजीआई सैफर्ड भी गया था ।

घटना स्थल से बरामद तमंचे के संबंध में थाना बढपुरा पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 57/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रॉक्सी यादव उर्फ नीलेश पुत्र चरन सिंह यादव निवासी मढैया अजबपुर थाना बढपुरा इटावा ।

पुलिस टीम- प्रथम टीम- उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र यादव प्रभारी एसओजी मय टीम ।

उ0नि0 श्री बी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम ।

द्वितीय टीम- श्री मुकेश बाबू चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना बढपुरा, उ0नि0 गीतम सिंह, का0 पंकज कुमार, का0 योगेन्द्र सिंह, का0चा0 रमाकांत शुक्ला ।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा